



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 30, 1981/ कार्तिक 8, 1903

No. 39]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 1981/KARTIKA 8, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1981

आ० अ० 74 (अ).—महाराष्ट्र राज्य में 15-नन्दुरबार (म०ज०जा०)  
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री सरूप  
सिंह हीरया नायक के त्याग-पत्र दे देने के परिणामस्वरूप उस मदन में  
एक स्थान रिक्त हो गया है,

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)  
की धारा 149 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन-  
क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 3  
दिसम्बर, 1981 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाए गए  
नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के अनुपूचित  
जन जाति का एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

आदेश से

[सं० 100/महा-लो०म०/1/81(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 30th October, 1981

NOTIFICATIONS

O.N. 74(E).—Whereas a vacancy has occurred in the  
House of the People by the reason of the resignation of  
Shri Sarup Singh Hirya Naik, a member elected to that  
House from 15-Nandurbar(ST) Parliamentary constituency  
in the State of Maharashtra;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section  
149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of  
1951), the Election Commission hereby calls upon the said  
constituency to elect a person belonging to the Scheduled  
Tribes in the State of Maharashtra to fill the said vacancy  
before 3rd December, 1981 in accordance with the provisions  
of the said Act and of the Rules and orders made there-  
under.

By order,

[No. 100/MT-HP/1/81(1)]

आ० अ० 75(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/महा-लो०स०/1/81(1), तारीख 30 अक्टूबर, 1981 के अनुसरण में 15-नन्दुरबार (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में:—

- (क) नाम निर्देशन करने के लिए 6 नवम्बर, 1981 (शुक्रवार) धार्मिक तारीख
- (ख) नाम निर्देशनों को संवीक्षा की तारीख 7 नवम्बर, 1981 (शनिवार)
- (ग) अर्पणितार्थ वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 9 नवम्बर, 1981 (सोमवार)
- (घ) वह तारीख जिसको याव 29 नवम्बर, 1981 (रविवार) और आवश्यक हो तो मसदान होगा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 3 दिसम्बर, 1981 (बृहस्पतिवार)

नियत करता है।

[सं० 100/महा-लो०स०/1/81(2)]

**O.N. 75(E).**—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 15-Nandurbar(ST) Parliamentary constituency in the State of Maharashtra in pursuance of its notification No. 100/MT-HP/1/81(1) dated 30th October, 1981 :—

- (a) the 6th November, 1981 (Friday), as the last date for making nominations;
- (b) the 7th November, 1981 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

- (c) the 9th November, 1981 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 29th November, 1981 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 3rd December, 1981 (Thursday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/MT-HP/1/81(2)]

आ० अ० 76(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/महा-लो०स०/1/81(1) तारीख 30 अक्टूबर, 1981 के अनुसरण में 15-नन्दुरबार (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा।

[सं० 100/महा-लो०स०/1/81(3)]

आदेश से

आर०पी० भल्ला, सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

**O.N. 76(E).**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8-00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 15-Nandurbar (ST) Parliamentary Constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/MT-HP/1/81(1) dated 30th October, 1981.

[No. 100/MT-HP/1/81(3)]

By order,

**R. P. BHALLA, Secy.**  
Election Commission of India